

[HANDOUT ]

कक्षा - सातवीं

विषय - संस्कृत (तृतीय भाषा)

पंचम - पाठ - पण्डिता रमाबाई

पाठ का सारांश :



*Ramabai*

प्रस्तुत पाठ 'पण्डिता रमाबाई' महोदया के जीवन को लेकर ही है। समाज सुधारक रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को हुआ था। उनके पिता का नाम अनन्तशास्त्री डोंगरे तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। कोलकाता में उन्हें पण्डिता और सरस्वती दो उपाधियों से विभूषित किया। उन्होंने महिलाओं के लिए शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरम्भ किया।

उन्होंने 1880 ई. में विपिन बिहारीदास से विवाह किया। गरीब बेसहारा महिलाओं के लिए मुम्बई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। यहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके बाद पुणे नगर के समीप केडगाँव में 'मुक्ति मिशन' नामक संस्थान की स्थापना की।

उन्हें सात भाषाओं का ज्ञान था। वे संस्कृत की विदुषी थीं। उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। उन्होंने ईसाई अपनाकर बाइबल का मराठी भाषा में अनुवाद किया। 1922 ई. में रमाबाई का निधन हो गया। 'स्त्रीधर्मनीति' 'हाई कास्ट हिंदू विमेन' इस प्रकार उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

-----